

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2020—माघ 18, शक 1941

---

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

---

कुछ नहीं.